

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवर्तित होगी।

(फा. सं. 354/255/2018-टीआरयू)

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि.667 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 8/2018- एकीकृत कर (दर) दिनांक 25 जनवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 85 (अ.) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

No. 20/2018- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 697(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 667 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-
In the said notification, in the Schedule, -

- (i) after S. No. 92 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"92 A	1401	Sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass";
-------	------	---

- (ii) after S. No. 93 A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"93 B	1404 90 90	Vegetable materials, for manufacture of jhadoo or broom sticks";
-------	------------	--

- (iii) for S. No. 102 A and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"102A	2306	De-oiled rice bran
		Explanation: The exemption applies to de-oiled rice bran falling under heading 2306 with effect from 25 th January, 2018";

- (iv) after S. No. 114 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

"114A	44 or 68	Deities made of stone, marble or wood
114B	46	Khali Dona; Goods made of sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass, including sabai grass rope";

- (v) for S. No. 117 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"117	48 or 4907 or 71	Rupee notes or coins when sold to Reserve Bank of India or the Government of India";
------	---------------------	--

- (vi) after S. No. 132 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“132A	53	Coir pith compost other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”;
-------	----	---

- (vii) after S. No. 146 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“146A	9619 00 10 or 9619 00 20	Sanitary towels (pads) or sanitary napkins; tampons”;
-------	-----------------------------	---

- (viii) after S. No. 151 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“152	Any Chapter except 71	Rakhi (other than those made of goods falling under Chapter 71)”.
------	--------------------------	---

2. This notification shall come into force on the 27th July, 2018.

[F. No. 354/255/2018-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 667 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 8/2018-Integrated Tax (Rate) dated 25th January, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 85 (E), dated the, 25th January, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सं. 21/2018- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 698(अ).—एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 5/2017, एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा0का0नि0 670 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“वशर्ते कि,-

- (i) इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात नीचे दी गई सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6क, 6ख, 6ग और 7 में उल्लिखित वस्तुओं के मामले में 01 अगस्त, 2018 को या उसके बाद से प्राप्त आपूर्ति पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लागू नहीं होगी; और